



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 740) पटना, बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर 2014

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
28 अगस्त 2014

सं0 2/नि. स्था. आशुलिपिक (03)-07/2007-4887—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली-2008 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।**—(1) यह नियमावली “बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2014” कही जा सकेगी।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संशोधन।**— उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 के उप-नियम (1) में प्रयुक्त शब्द “यह नियमावली” के बाद और शब्द “सहकारिता विभाग” के पूर्व शब्द “बिहार राज्य” अंतः स्थापित किये जायेंगे।
3. **उक्त नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियम (2) का प्रतिस्थापन।**—उक्त नियमावली, 2008 के नियम 4 का उप-नियम (2) का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
(2) आशुलिपिक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्त्ता इन्टरमिडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता होगी :

“परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत आशुलिपिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में किये गये संशोधन से प्रभावित नहीं होंगे।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश गुप्ता,
सरकार के प्रधान सचिव।

8 सितम्बर 2014

सं० 2/नि. स्था. आशुलिपिक (03)-07/2007-5143—अधिसूचना संख्या 4887 दिनांक 28.08.14 के तहत निर्गत “बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014” का संलग्न अंग्रेजी पाठ बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश गुप्ता,
 सरकार के प्रधान सचिव।

The 28th August 2014

No. 2/नि.स्था.आशुलिपिक(03)-07/2007-4887—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar State Co-operative Department (Field) Stenographer Rules, 2008: -

- 1. Short title and commencement:** - (1) These Rules may be called "The Bihar State Co-operative Department Field Stenographer Cadre (Amendment) Rules, 2014".
 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 (3) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of Rule 1 of the said Rules.** - After the words "These Rules" and before the words "Co-operative Department" used in sub-rule (1) of Rule 1 of the said Rules, 2008, the words "Bihar State" shall be inserted.
- 3. Substitution of sub rule (2) of Rule 4 of the said Rules, 2008:** - Sub-rule (2) of the Rule 4 of the said Rules, 2008 shall be substituted by the following: -
 "(2) The minimum educational qualification for appointment in Stenographer Grade-III shall be Intermediate (10+2) or passing in the equivalent examination:

Provided that the amendment made in minimum educational qualification shall not affect the stenographers appointed before the Rules come into force and working at present."

By order of the Governor of Bihar,
RAJESH GUPTA,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 740-571+250-डी०टी०पी०।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>